

**UGC NET PAPER 2 NOVEMBER 05, 2017 SHIFT 1 MUSEOLOGY & CONSERVATION QUESTION PAPER**

**Note :** This paper contains **fifty (50)** objective type questions of **two (2)** marks each. All questions are **compulsory**.

1. In the context of marketing, the museums are primarily considered as :  
(1) Research-organization      (2) Service-organization  
(3) Education-organization      (4) Collection-organization
  
2. Binomial classification of Biological specimen was introduced by :  
(1) Aristotle      (2) Charles Darwin      (3) Carlos Linnacus      (4) George Mendel
  
3. What a Museum Curator should **not** do on hearing fire alarm ?  
(1) Raise the alarm immediately      (2) Evacuate people without panick  
(3) Inform press immediately      (4) Try to control and extinguish fire
  
4. Who urged the use of electronic bombardment to stimulate the viewer ?  
(1) Marshall McLuhan      (2) Duncon Cameron  
(3) Garry Thomson      (4) A.E. Parr
  
5. Ecomuseum is concerned with :  
(1) Archaeological sites  
(2) Eco-systems  
(3) A geographical area including its people  
(4) Environment
  
6. Book-shoes are used for storing :  
(1) Leather objects      (2) Shoes  
(3) Textile      (4) Old manuscripts and books
  
7. The link between an object and all associated information is :  
(1) Serial Number      (2) Accession Number  
(3) Accession Register      (4) Index Card

**निर्देश :** इस प्रश्नपत्र में पचास (50) बहु-विकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के दो (2) अंक हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

1. विपणन के संदर्भ में, संग्रहालयों को प्राथमिकतः माना जाता है :
 

(1) शोध-संस्था	(2) सेवा-संस्था
(3) शिक्षा-संस्था	(4) संकलन-संस्था
2. जैविक नमूना का द्वि-नामी सिद्धान्त किस वैज्ञानिक ने प्रारम्भ किया ?
 

(1) अरस्टू	(2) चार्ल्स डारविन	(3) कार्लोस लिनाकस	(4) जार्ज मेंडेल
------------	--------------------	--------------------	------------------
3. फायर अलार्म सुनने के बाद संग्रहालय क्यूरेटर को क्या नहीं करना चाहिये ?
 

(1) तुरन्त अलार्म बजाना चाहिये	(2) बिना आतंकित हुये लोगों को बाहर निकालना चाहिये
(3) तुरंत प्रेस को खबर करना चाहिये	(4) आग को नियंत्रित करने और बुझाने का प्रयास करना चाहिये
4. दर्शक को उत्तेजित करने के लिये किसने इलेक्ट्रोनिक बमबारी के प्रयोग पर बल दिया ?
 

(1) मार्शल मक्लूहन	(2) डंकन कैमरान
(3) गैरी थामसन	(4) ए.ई. पॉर
5. इकोम्यूजियम का सम्बन्ध किससे है ?
 

(1) पुरातात्त्विक स्थल	(2) इको-सिस्टम
(3) निवासियों के साथ एक भौगोलिक क्षेत्र	(4) पर्यावरण
6. बुक-शूज का उपयोग किसके भण्डारण के लिये किया जाता है ?
 

(1) चर्म निर्मित सामग्री	(2) जूते
(3) वस्त्र	(4) पुरातन पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकें
7. किसी वस्तु एवं उससे सम्बन्धी समस्त सूचना के बीच की कड़ी है ?
 

(1) क्रम संख्या	(2) परिग्रहण संख्या
(3) परिग्रहण पंजिका	(4) अनुक्रमणिका कार्ड



8. पौधों के शुष्क परिरक्षण (ड्राई प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स) की तकनीक निम्नलिखित में से क्या कहलाती है ?  
(1) फ्रीज़ ड्राइंग (2) हरबेरियम मेकिंग  
(3) ऐक्वेरियम मेकिंग (4) प्लैनेटेरियम

9. सोलेण्डर बक्सों का उपयोग किसके भण्डारण के लिए किया जाता है ?  
(1) सिक्के (2) टेराकोटा  
(3) पाण्डुलिपियाँ, मुद्रित सामग्री (प्रिंट्स), रेखा-चित्र, आदि  
(4) परिधान

10. लोक सम्पर्क एक चेतन प्रयास है ताकि :  
(1) लोगों को शिक्षित किया जा सके (2) धन इकट्ठे किये जा सकें  
(3) लोक-बोध् को प्रभावित किया जा सके (4) संस्कृति का प्रसार किया जा सके

11. नेशनल कॉसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स की स्थापना किस वर्ष में हुई ?  
(1) 1946 (2) 1961 (3) 1978 (4) 1984

12. भारत में संग्रहालयों का प्रथम सर्वेक्षण किसने किया था ?  
(1) मार्खम एण्ड हरग्रीव्स (2) मार्टिमर व्हीलर  
(3) उषा अग्रवाल (4) सी. शिवरामामूर्ति

13. वह विकिरण जिसका हमारी आँख पता लगा लेती है, है :  
(1) पराबैंगनी (यू.वी.) (2) प्रकाश  
(3) अवरक्त लाल (आई.आर.) (4) उपर्युक्त सभी

14. प्लास्टर ऑफ पेरिस का संघटक अवयव है :  
(1) चूना पत्थर (2) चॉक पावडर (3) जिप्सम (4) बलुआ पत्थर

15. हवा में पड़े कण (पार्टिक्यूलेट मैटर) के आकार को व्यक्त किया जाता है :  
(1) पी.पी.बी. (2) पी.पी.एम. (3) माइक्रॉन (4) माइक्रोग्राम

16. Arrange the stages of the process of recruitment in order :

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| (a) Advertisement                | (b) Interview and selection     |
| (c) Framing of Recruitment rules | (d) Short-listing of applicants |

**Code :**

- (1) (a), (b), (c), (d) (2) (b), (c), (d), (a) (3) (c), (a), (d), (b) (4) (d), (b), (c), (a)

17. Arrange the following epochs of Cenozoic era in chronological order :

- |               |                 |               |             |
|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| (a) Paleocene | (b) Pleistocene | (c) Oligocene | (d) Miocene |
|---------------|-----------------|---------------|-------------|

**Code :**

- (1) (a), (b), (c), (d) (2) (a), (c), (d), (b) (3) (b), (c), (d), (a) (4) (c), (d), (a), (b)

18. Arrange the steps of marking numbers on ceramics and glass :

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| (a) Seal surface     | (b) Seal the number        |
| (c) Write the number | (d) Dust and clean surface |

**Code :**

- (1) (d), (a), (c), (b) (2) (d), (c), (b), (a) (3) (a), (b), (c), (d) (4) (b), (c), (d), (a)

19. Arrange the basic steps involved in control process in order :

- |   |  |
|---|--|
| (a) Remedial action   |  |
| (b) Comparing actual performance with the planned performance |  |
| (c) Establishment of standards                                |  |
| (d) Measurement of performance                                |  |

**Code :**

- (1) (c), (b), (d), (a) (2) (a), (b), (c), (d) (3) (d), (c), (b), (a) (4) (c), (d), (b), (a)

20. Arrange the following stages of publication in order :

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| (a) Editing             | (b) Printing and Binding |
| (c) Sales and Marketing | (d) Writing              |

**Code :**

- (1) (d), (a), (b), (c) (2) (a), (b), (c), (d) (3) (d), (c), (b), (a) (4) (b), (d), (a), (c)

16. भर्ती प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिये :

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| (a) विज्ञापन              | (b) साक्षात्कार एवं चयन            |
| (c) भर्ती नियमों को बनाना | (d) आवेदकों को चयनित सूची में रखना |

**कूट :**

- (1) (a), (b), (c), (d) (2) (b), (c), (d), (a) (3) (c), (a), (d), (b) (4) (d), (b), (c), (a)

17. सिनोजॉइक युग के निम्न कालों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिये :

- |              |                 |              |             |
|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| (a) पेलिओसिन | (b) प्लेस्टोसिन | (c) ऑलिगोसिन | (d) मिलोसिन |
|--------------|-----------------|--------------|-------------|

**कूट :**

- (1) (a), (b), (c), (d) (2) (a), (c), (d), (b) (3) (b), (c), (d), (a) (4) (c), (d), (a), (b)

18. सिरामिक और शीशे पर संख्या अंकित करने के चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए :

- |                        |  |
|------------------------|--|
| (a) सतह को सील कर देना | (b) संख्या को सील कर देना              |
| (c) संख्या को लिखना    | (d) सतह की धूल झाड़ना एवं उसे साफ करना |

**कूट :**

- (1) (d), (a), (c), (b) (2) (d), (c), (b), (a) (3) (a), (b), (c), (d) (4) (b), (c), (d), (a)

19. नियंत्रण प्रक्रिया में शामिल मूलभूत चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए :

- |   |  |
|---|--|
| (a) उपचारात्मक कार्बाई  |  |
| (b) वास्तविक कार्य निष्पादन को योजना कार्य निष्पादन से तुलना करना |  |
| (c) मानकों का निर्धारण  |  |
| (d) कार्य निष्पादन की माप   |  |

**कूट :**

- (1) (c), (b), (d), (a) (2) (a), (b), (c), (d) (3) (d), (c), (b), (a) (4) (c), (d), (b), (a)

20. प्रकाशन के निम्नलिखित चरणों को उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिये :

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| (a) संपादन           | (b) मुद्रण तथा बंधन |
| (c) विक्री एवं विपणन | (d) लेखन            |

**कूट :**

- (1) (d), (a), (b), (c) (2) (a), (b), (c), (d) (3) (d), (c), (b), (a) (4) (b), (d), (a), (c)



21. जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के निम्नलिखित विभाजन को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिये :

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| (a) वर्ग (क्लास)      | (b) फाइलम               |
| (c) प्रजाति (स्पेसीज) | (d) कुल परिवार (फैमिली) |

**कूट :**

- (1) (c), (d), (a), (b) (2) (a), (b), (c), (d) (3) (b), (c), (d), (a) (4) (a), (d), (c), (b)

22. निम्नलिखित संग्रहालयों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिये :

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| (a) ब्रिटिश म्यूजियम | (b) स्मिथसोनियन संस्थान |
| (c) यूफिजी गैलरी     | (d) लूव्र म्यूजियम      |

**कूट :**

- (1) (c), (b), (d), (a) (2) (c), (a), (d), (b) (3) (b), (c), (a), (d) (4) (d), (a), (b), (c)

23. निम्नलिखित संग्रहालयों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिये :

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| (a) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल | (b) सलारजंग संग्रहालय |
| (c) इलाहाबाद म्यूजियम       | (d) इन्डियन म्यूजियम  |

**कूट :**

- (1) (d), (a), (c), (b) (2) (c), (a), (d), (b) (3) (b), (d), (a), (c) (4) (a), (c), (b), (d)

24. वे कौन-से कीट हैं जिनका पता लगने से पहले ही वे किसी काष्ठ निर्मित वस्तु को लगभग पूरी तरह खा जाते हैं ?

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| (a) डर्मिस्टिड बीटल | (b) दीमक       |
| (c) बीटल लार्वा     | (d) सिल्वर फिश |

**कूट :**

- (1) (a), (b), (c) (2) (b), (c) (3) (b), (c), (d) (4) (a), (b), (c), (d)

25. किसी कलाकृति के प्रति परिग्रहण (डिएक्सेशन) का निर्णय किस पर आधारित नहीं होना चाहिए ?

- |   |
|---|
| (a) संग्रहाध्यक्ष (क्यूरेटर) का सौंदर्य परक पक्षपाता  |
| (b) किसी कलाकार, शैली अथवा विषय की क्षणिक अलोकप्रियता |
| (c) राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन                       |
| (d) विशेषज्ञ समिति का विचार                           |

**कूट :**

- (1) (a), (b), (c), (d) (2) (a), (d) (3) (a), (b), (c) (4) (b), (c), (d)

**26.** If a museum uses a lot of daylight, it should :

- (a) Use curtains and blinds over windows
- (b) Eliminate direct sunlight
- (c) Use filtering films (UV)
- (d) Allow sunshine in the galleries

**Code :**

- (1) (a), (b), (c), (d)    (2) (a), (b), (c)    (3) (c), (d)    (4) (b), (c), (d)

**27.** Which of the following are dynamic interpretation techniques ?

- |                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| (a) Sound - Guides | (b) Lectures                     |
| (c) Diorama        | (d) Working model's animatronics |

**Code :**

- (1) (a), (b), (d)    (2) (a), (b), (c), (d)    (3) (a), (c), (d)    (4) (b), (c)

**28.** Which of the following would benefit visually impaired visitors ?

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| (a) Braille Information | (b) Tactile Plans                  |
| (c) Taped Guides        | (d) Sign Language-interpreted tour |

**Code :**

- (1) (a), (b), (c)    (2) (b), (c), (d)    (3) (a), (b), (c), (d)    (4) (a), (c), (d)

**29.** Which of the following material change dimensions with change in humidity ?

- |          |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| (a) Wood | (b) Glass | (c) Ivory | (d) Glues |
|----------|-----------|-----------|-----------|

**Code :**

- (1) (a), (b), (c)    (2) (b), (c), (d)    (3) (a), (b), (c), (d)    (4) (a), (c), (d)

**30.** Conservation activities include :

- |                 |                   |               |                 |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| (a) Examination | (b) Documentation | (c) Treatment | (d) Restoration |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|

**Code :**

- (1) (a), (b), (c)    (2) (b), (c), (d)    (3) (a), (c), (d)    (4) (a), (b), (c), (d)

**31.** Which of the following can be valid considerations for de-accessioning works of Art ?

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| (a) Damage beyond repair          | (b) Duplication                               |
| (c) Irrelevance to the collection | (d) The possibility of up-grading by exchange |

**Code :**

- (1) (a), (b), (c)    (2) (b), (c), (d)    (3) (a), (c), (d)    (4) (a), (b), (c), (d)

26. यदि किसी संग्रहालय में दिन के प्रकाश का अधिक प्रयोग होता है, तो इसे :

- (a) खिड़कियों पर पर्दों तथा ओट (ब्लाइंडस) का उपयोग करना चाहिये
- (b) सीधे सूर्य के प्रकाश आने को रोकने का उपाय करना चाहिये
- (c) छानना फिल्मों (फिल्टरिंग फिल्मों) (यू.वी.) का प्रयोग करना चाहिये
- (d) दीर्घाओं में धूप आने देना चाहिये

**कूट :**

- (1) (a), (b), (c), (d)    (2) (a), (b), (c)    (3) (c), (d)    (4) (b), (c), (d)

27. निम्नलिखित में से कौन गतिक व्याख्या तकनीक (डायनामिक इन्टरप्रेटेशन टेक्नीक) हैं ?

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| (a) ध्वनि-गाइड                | (b) व्याख्यान                         |
| (c) त्रिविम प्रदर्श (डायोरमा) | (d) क्रियाशील प्रतिमान एनिमेटेड निक्स |

**कूट :**

- (1) (a), (b), (d)    (2) (a), (b), (c), (d)    (3) (a), (c), (d)    (4) (b), (c)

28. निम्नलिखित में से किनसे दृष्टिबाधित व्यक्तियों को लाभ होगा ?

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| (a) ब्रेल में जानकारी             | (b) स्पर्शी योजना               |
| (c) टेप में रिकॉर्ड किये गये गाइड | (d) संकेत भाषा-व्याख्यायित दौरा |

**कूट :**

- (1) (a), (b), (c)    (2) (b), (c), (d)    (3) (a), (b), (c), (d)    (4) (a), (c), (d)

29. निम्नलिखित में से किन वस्तुओं के आकार में परिवर्तन आर्द्धता में परिवर्तन के कारण होता है ?

- |           |          |              |                 |
|-----------|----------|--------------|-----------------|
| (a) लकड़ी | (b) शीशा | (c) हाथीदांत | (d) सरेस (ग्लू) |
|-----------|----------|--------------|-----------------|

**कूट :**

- (1) (a), (b), (c)    (2) (b), (c), (d)    (3) (a), (b), (c), (d)    (4) (a), (c), (d)

30. संरक्षण कार्यकलापों में शामिल हैं :

- |          |             |                       |                 |
|----------|-------------|-----------------------|-----------------|
| (a) जाँच | (b) प्रलेखन | (c) शोधन (ट्रीटमेन्ट) | (d) जीर्णोद्धार |
|----------|-------------|-----------------------|-----------------|

**कूट :**

- (1) (a), (b), (c)    (2) (b), (c), (d)    (3) (a), (c), (d)    (4) (a), (b), (c), (d)

31. निम्नलिखित में से कौन किसी कलाकृति के प्रति परिग्रहण के लिये सही मानदंड हैं ?

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| (a) न मरम्मत होने योग्य क्षति | (b) अनुलिपिकरण  |
| (c) संग्रह के लिये अप्रासंगिक | (d) विनियम द्वारा कोटि उन्नयन (अपग्रेडिंग) की संभावना |

**कूट :**

- (1) (a), (b), (c)    (2) (b), (c), (d)    (3) (a), (c), (d)    (4) (a), (b), (c), (d)

**32.** Which of the following statements are **true** ?

- (a) Tropical climates are conducive to insect growth.
- (b) Ivory bleaches when exposed to light.
- (c) Fungi are simple plant like organism's which do not have chlorophyll.
- (d) Polyester film and enclosures can not be used for friable media.

**Code :**

- (1) (a), (d)      (2) (b), (c), (d)      (3) (a), (b), (c), (d)      (4) (a), (b), (c)

**33.** Match the Museums in **List - I** with their locations in **List - II** :

<b>List - I</b>	<b>List - II</b>
(a) Hermitage	(i) London, England
(b) Uffizi Gallery	(ii) Newyork, USA
(c) Victoria and Albert Museum	(iii) Florence, Italy
(d) Metropolitan Museum of Art	(iv) St. Petersburg, Russia

**Code :**

- |     |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
| (a) | (b)   | (c)   | (d)   |
| (1) | (ii)  | (iv)  | (iii) |
| (2) | (i)   | (ii)  | (iv)  |
| (3) | (iii) | (iv)  | (ii)  |
| (4) | (iv)  | (iii) | (i)   |

**34.** Match the terms in **List-I** with their meanings in **List - II** :

<b>List - I</b>	<b>List - II</b>
(a) Impermeable	(i) Protection to prevent mechanical and atmospheric damage to picture fabrics
(b) Miscibility	(ii) The ability of a material to undergo plastic deformation by tension
(c) Backing	(iii) The property of a material which does not allow the passage of another substance
(d) Ductility	(iv) The property whereby certain liquids will mix together in all proportions to form a homogeneous mixture

**Code :**

- |     |       |      |       |
|-----|-------|------|-------|
| (a) | (b)   | (c)  | (d)   |
| (1) | (i)   | (iv) | (ii)  |
| (2) | (iv)  | (ii) | (iii) |
| (3) | (ii)  | (iv) | (iii) |
| (4) | (iii) | (iv) | (i)   |

32. निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं ?

- (a) उष्णकटिबंधीय जलवायु कीटों में वृद्धि होने के लिये अनुकूल है।
- (b) प्रकाश की उपस्थिति में हाथीदांत का रंग उड़ जाता है।
- (c) फूँफूँ जीव की तरह सामान्य पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता।
- (d) पॉलिस्टर फिल्मों और आवरणों का प्रयोग भुरभुरे माध्यमों के लिये नहीं किया जाना चाहिये।

**कूट :**

- (1) (a), (d)      (2) (b), (c), (d)      (3) (a), (b), (c), (d)      (4) (a), (b), (c)

33. सूची - I में दिये गये संग्रहालयों को सूची - II में दिये गये उनके स्थानों से सुमेलित कीजिये :

**सूची - I**

- (a) हर्मिटेज
- (b) उफिजी गैलरी
- (c) विक्टोरिया एंड अलबर्ट म्यूज़ियम
- (d) मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट

**सूची - II**

- (i) लन्दन, इंग्लैंड
- (ii) न्यूयार्क, यू.एस.ए.
- (iii) फ्लोरेन्स, इटली
- (iv) सेंट पीटर्सबर्ग, रूस

**कूट :**

- |     |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
| (a) | (b)   | (c)   | (d)   |
| (1) | (ii)  | (iv)  | (iii) |
| (2) | (i)   | (ii)  | (iv)  |
| (3) | (iii) | (iv)  | (ii)  |
| (4) | (iv)  | (iii) | (i)   |

34. सूची - I में दिये गये पदों को सूची - II में दिये गये उनके अर्थ से सुमेलित कीजिये :

**सूची - I**

- (a) अपारगम्य
- (b) मिश्रणीयता
- (c) पृष्ठाधान (बैकिंग)
- (d) तन्यता

**सूची - II**

- (i) चित्र के तनुओं के यांत्रिक और वायुमंडलीय नुकसान से बचाना
- (ii) तनाव के कारण किसी पदार्थ के प्लास्टिक विरूपण होने की क्षमता
- (iii) किसी पदार्थ का गुण जिसके कारण अन्य पदार्थ के प्रवेश की अनुमति नहीं है।
- (iv) वह गुण जिससे कुछ द्रव सभी अनुपातों में मिश्रित होकर एक समांग मिश्रण बनाते हैं।

**कूट :**

- |     |       |      |       |
|-----|-------|------|-------|
| (a) | (b)   | (c)  | (d)   |
| (1) | (i)   | (iv) | (ii)  |
| (2) | (iv)  | (ii) | (iii) |
| (3) | (ii)  | (iv) | (iii) |
| (4) | (iii) | (iv) | (i)   |

35. Match the Instrument in **List - I** with their purpose in **List - II** :

<b>List - I</b>	<b>List - II</b>
(a) Psychrometer	(i) Sterilization
(b) Thermostatic Press	(ii) To check addition and alterations in paintings and documents
(c) Autoclave	(iii) Preparation of dry plant specimen
(d) UV Lamp	(iv) Measuring RH

**Code :**

- |     |      |       |       |
|-----|------|-------|-------|
| (a) | (b)  | (c)   | (d)   |
| (1) | (iv) | (iii) | (i)   |
| (2) | (iv) | (i)   | (ii)  |
| (3) | (iv) | (iii) | (ii)  |
| (4) | (i)  | (iv)  | (ii)  |
|     |      |       | (iii) |

36. Match the concepts in **List - I** with their meaning in **List - II** :

<b>List - I</b>	<b>List - II</b>
(a) Andragogy	(i) Gradual cessation of a response as a result of passage of time
(b) Cognitive	(ii) A relatively permanent change in behaviour that occurs through experience
(c) Forgetting	(iii) The art and practice of teaching adult learners
(d) Learning	(iv) Mental processes including thinking, memory, etc.

**Code :**

- |     |       |      |       |
|-----|-------|------|-------|
| (a) | (b)   | (c)  | (d)   |
| (1) | (iii) | (iv) | (i)   |
| (2) | (iii) | (ii) | (iv)  |
| (3) | (iii) | (i)  | (iv)  |
| (4) | (iv)  | (ii) | (iii) |
|     |       |      | (i)   |

35. सूची - I में दिये गये यंत्र को सूची - II में दिये गये उनके उद्देश्य से सुमेलित कीजिये :

**सूची - I**

**सूची - II**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| (a) मनोमिति (साइक्रोमीटर) | (i) जीवाणुनाशन  |
| (b) थर्मोस्टेटिक प्रेस    | (ii) चित्रों तथा दस्तावेजों में जुड़ जाने तथा होने वाले परिवर्तन की जाँच करना |
| (c) आटोकलेव               | (iii) शुष्क पादप नमूना तैयार करना   |
| (d) यू.वी. लैम्प          | (iv) RH मापना   |

**कूट :**

- |     |      |       |      |
|-----|------|-------|------|
| (a) | (b)  | (c)   | (d)  |
| (1) | (iv) | (iii) | (i)  |
| (2) | (iv) | (i)   | (ii) |
| (3) | (iv) | (iii) | (ii) |
| (4) | (i)  | (iv)  | (ii) |

36. सूची - I में दी गयी अवधारणाओं को सूची - II में दिये गये उनके अर्थ से सुमेलित कीजिये :

**सूची - I**

**सूची - II**

- |                  |   |
|------------------|---|
| (a) एंड्रागॉगी   | (i) समय बीतने के फलस्वरूप अनुक्रिया का धीरे-धीरे अवसान                |
| (b) संज्ञानात्मक | (ii) व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन जो अनुभव से होता है |
| (c) विस्मरण      | (iii) वयस्क शिक्षार्थियों को सिखाने की कला एवं अभ्यास                 |
| (d) सीखना        | (iv) मानसिक प्रक्रिया जिसमें सोचना स्मृति शामिल हैं                   |

**कूट :**

- |     |       |      |       |
|-----|-------|------|-------|
| (a) | (b)   | (c)  | (d)   |
| (1) | (iii) | (iv) | (i)   |
| (2) | (iii) | (ii) | (iv)  |
| (3) | (iii) | (i)  | (iv)  |
| (4) | (iv)  | (ii) | (iii) |

37. Match the names of the Journals in **List - I** with their publishers in **List - II** :

**List - I****List - II**

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| (a) Museum International    | (i) Museum Association, Britain |
| (b) Monumentum              | (ii) IIC                        |
| (c) Studies in conservation | (iii) ICOMOS                    |
| (d) Museum Journal          | (iv) ICOM                       |

**Code :**

- |         |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|
| (a)     | (b)   | (c)   | (d)   |
| (1) (i) | (iv)  | (ii)  | (iii) |
| (2)     | (iv)  | (iii) | (ii)  |
| (3)     | (iv)  | (ii)  | (iii) |
| (4)     | (iii) | (ii)  | (iv)  |

38. Match the crafts in **List - I** with the state they belong to in **List - II** :

**List - I****List - II**

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| (a) Filigree work | (i) Lucknow     |
| (b) Bidri work    | (ii) Odisha     |
| (c) Kashidakari   | (iii) Karnataka |
| (d) Chickankari   | (iv) Kashmir    |

**Code :**

- |          |       |      |       |
|----------|-------|------|-------|
| (a)      | (b)   | (c)  | (d)   |
| (1) (ii) | (iii) | (iv) | (i)   |
| (2)      | (ii)  | (iv) | (iii) |
| (3)      | (iii) | (iv) | (ii)  |
| (4)      | (ii)  | (i)  | (iv)  |

39. Match the personalities in **List - I** with their contributions in **List - II** :

**List - I****List - II**

- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| (a) Nathaniel Wallich | (i) Mathura site Museum             |
| (b) F.S. Growse       | (ii) Bharat Kala Bhavan, Varanasi   |
| (c) Moti Chandra      | (iii) Indian Museum, Kolkata        |
| (d) Rai Krishnadas    | (iv) Prince of Wales Museum, Mumbai |

**Code :**

- |           |       |      |       |
|-----------|-------|------|-------|
| (a)       | (b)   | (c)  | (d)   |
| (1) (iii) | (ii)  | (iv) | (i)   |
| (2)       | (iii) | (i)  | (iv)  |
| (3)       | (iv)  | (ii) | (iii) |
| (4)       | (i)   | (iv) | (ii)  |

37. सूची - I में दिये गये जर्नलों को सूची - II में दिये गये उनके प्रकाशकों से सुमेलित कीजिए :

**सूची - I**

- (a) म्यूज़ियम इन्टरनेशनल
- (b) मोन्यूमेन्टम
- (c) स्टडीज इन कंजर्वेशन
- (d) म्यूज़ियम जर्नल

**सूची - II**

- (i) म्यूज़ियम एसोसिएशन, ब्रिटेन
- (ii) आई.आई.सी.
- (iii) आई.सी.ओ.एम.ओ.एस.
- (iv) आई.सी.ओ.एम.

**कूट :**

- |     |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
| (a) | (b)   | (c)   | (d)   |
| (1) | (i)   | (iv)  | (ii)  |
| (2) | (iv)  | (iii) | (ii)  |
| (3) | (iv)  | (ii)  | (iii) |
| (4) | (iii) | (ii)  | (iv)  |

38. सूची - I में दिये गये शिल्प को सूची - II में दिये गये उनके राज्य से सुमेलित कीजिये :

**सूची - I**

- (a) फिलग्री का काम
- (b) बीदरी का काम
- (c) कशीदाकारी का काम
- (d) चिकनकारी काम

**सूची - II**

- (i) लखनऊ
- (ii) ओडिसा
- (iii) कर्नाटक
- (iv) कश्मीर

**कूट :**

- |     |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
| (a) | (b)   | (c)   | (d)   |
| (1) | (ii)  | (iii) | (iv)  |
| (2) | (ii)  | (iv)  | (iii) |
| (3) | (iii) | (iv)  | (ii)  |
| (4) | (ii)  | (i)   | (iv)  |

39. सूची - I में दिये गये व्यक्तियों को सूची - II में उनके द्वारा दिये गये योगदान से सुमेलित कीजिए :

**सूची - I**

- (a) नथानियल वालिच
- (b) एफ.एस. ग्राउस
- (c) मोती चंद्र
- (d) राय कृष्णदास

**सूची - II**

- (i) मथुरा साइट म्यूज़ियम
- (ii) भारत कला भवन, वाराणसी
- (iii) इंडियन म्यूज़ियम, कोलकाता
- (iv) प्रिंस ऑप वेल्स म्यूज़ियम, मुम्बई

**कूट :**

- |     |       |      |       |
|-----|-------|------|-------|
| (a) | (b)   | (c)  | (d)   |
| (1) | (iii) | (ii) | (iv)  |
| (2) | (iii) | (i)  | (iv)  |
| (3) | (iv)  | (ii) | (iii) |
| (4) | (i)   | (iv) | (ii)  |

**40.** Match the authors in **List - I** with the books they have written in **List - II** :

<b>List - I</b>	<b>List - II</b>
(a) Bazin Germain	(i) Museums : In Search of Usable Future
(b) Dana John Cotton	(ii) The Sacred Grove : Essays on Museums
(c) Ripley, Sidney Dillon	(iii) The Museum Age
(d) Wittlin Alma S.	(iv) The New Museum

**Code :**

- |     |       |       |      |
|-----|-------|-------|------|
| (a) | (b)   | (c)   | (d)  |
| (1) | (iii) | (ii)  | (iv) |
| (2) | (iv)  | (iii) | (ii) |
| (3) | (i)   | (iv)  | (ii) |
| (4) | (iii) | (iv)  | (ii) |
| (i) | (i)   | (i)   | (i)  |

**41.** **Assertion (A) :** Conducting a hazard assessment will stop disasters happening.

**Reason (R) :** Hazard Assessment ensures that steps are taken to minimize the impact if a disaster occurs.

**Code :**

- |     |                                 |     |                                 |
|-----|---------------------------------|-----|---------------------------------|
| (1) | (A) is wrong, but (R) is right. | (2) | (A) is right, but (R) is wrong. |
| (3) | Both (A) and (R) are right.     | (4) | Both (A) and (R) are wrong.     |

**42.** **Assertion (A) :** For conservation, the works of Art does not need prioritazation.

**Reason (R) :** Because all works of art are of equal value.

**Code :**

- |     |                                 |     |                                 |
|-----|---------------------------------|-----|---------------------------------|
| (1) | (A) is wrong, but (R) is right. | (2) | (A) is right, but (R) is wrong. |
| (3) | Both (A) and (R) are right.     | (4) | Both (A) and (R) are wrong.     |

**43.** **Assertion (A) :** The light source should be inside the showcase.

**Reason (R) :** To save the cost of instalation.

**Code :**

- |     |                                 |     |                                 |
|-----|---------------------------------|-----|---------------------------------|
| (1) | (A) is wrong, but (R) is right. | (2) | (A) is right, but (R) is wrong. |
| (3) | Both (A) and (R) are right.     | (4) | Both (A) and (R) are wrong.     |

40. सूची - I में दिये गये लेखकों को सूची - II में उनके द्वारा लिखे ग्रंथों से सुमेलित कीजिये :

**सूची - I**

- (a) बेजिन जर्मियन
- (b) डाना जॉन कौटन
- (c) रिप्ले, सिडनी डिलन
- (d) विट्लीन अल्मा एस.

**सूची - II**

- (i) म्यूज़ियम्स : इन सर्च ऑफ यूजेबल फ्यूचर
- (ii) द स्क्रेड ग्रोव : एसेज ऑन म्यूज़ियम्स
- (iii) द म्यूज़ियम एज
- (iv) द न्यू म्यूज़ियम

**कूट :**

- |     |       |       |      |
|-----|-------|-------|------|
| (a) | (b)   | (c)   | (d)  |
| (1) | (iii) | (ii)  | (iv) |
| (2) | (iv)  | (iii) | (ii) |
| (3) | (i)   | (iv)  | (ii) |
| (4) | (iii) | (iv)  | (ii) |

41. अभिकथन (A) : खतरा मूल्यांकन किये जाने से आपदाओं के घटित होने को रोका जा सकता है।

तर्क (R) : आपदा मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता है कि आपदा के घटित होने की दशा में इसके प्रभाव को न्यूनतम किया जाय।

**कूट :**

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (1) (A) गलत है, परंतु (R) सही है। | (2) (A) सही है, परंतु (R) गलत है। |
| (3) (A) और (R) दोनों सही हैं।     | (4) (A) और (R) दोनों गलत हैं।     |

42. अभिकथन (A) : कलाकृतियों के संरक्षण हेतु इन्हें प्राथमिकता का क्रम देने की आवश्यकता नहीं है।

तर्क (R) : क्योंकि सभी कलाकृतियों का समान महत्व है।

**कूट :**

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (1) (A) गलत है, परंतु (R) सही है। | (2) (A) सही है, परंतु (R) गलत है। |
| (3) (A) और (R) दोनों सही हैं।     | (4) (A) और (R) दोनों गलत हैं।     |

43. अभिकथन (A) : प्रकाश स्रोत को मंजूषा के अंदर होना चाहिये।

तर्क (R) : ताकि संस्थापन की लागत की बचत की जा सके।

**कूट :**

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (1) (A) गलत है, परंतु (R) सही है। | (2) (A) सही है, परंतु (R) गलत है। |
| (3) (A) और (R) दोनों सही हैं।     | (4) (A) और (R) दोनों गलत हैं।     |

44. **Assertion (A) :** An exhibition brief should take the form of a well considered piece of instructive writing, written for ease of reference.

**Reason (R) :** It contains all the information to enable designer to understand the problem and commence work on design problem.

**Code :**

- (1) (A) is wrong, but (R) is right.      (2) (A) is right, but (R) is wrong.  
(3) Both (A) and (R) are right.      (4) Both (A) and (R) are wrong.

45. **Assertion (A) :** Soda-acid fire extinguishers are not recommended in museums.

**Reason (R) :** They are cumbersome to use and damaging to collections.

**Code :**

- (1) (A) is wrong, but (R) is right.      (2) (A) is right, but (R) is wrong.  
(3) Both (A) and (R) are right.      (4) Both (A) and (R) are wrong.

46. **Assertion (A) :** The deterioration of objects due to light stops when the objects are placed in the dark.

**Reason (R) :** Once started, photochemical reactions continue even after the exposure to light or UV radiation has stopped.

**Code :**

- (1) (A) is wrong, but (R) is right.      (2) (A) is right, but (R) is wrong.  
(3) Both (A) and (R) are right.      (4) Both (A) and (R) are wrong.

47. **Assertion (A) :** Peal's American Museum or Philadelphia Museum failed to survive.

**Reason (R) :** Because of financial reasons.

**Code :**

- (1) (A) is wrong, but (R) is right.      (2) (A) is right, but (R) is wrong.  
(3) Both (A) and (R) are right.      (4) Both (A) and (R) are wrong.

48. **Assertion (A) :** The freezing process as method of pest control, should not be used on a routine or preventive basis.

**Reason (R) :** It is an interventive treatment.

**Code :**

- (1) (A) is wrong, but (R) is right.      (2) (A) is right, but (R) is wrong.  
(3) Both (A) and (R) are right.      (4) Both (A) and (R) are wrong.

**44. अभिकथन (A) :** किसी प्रदर्शनी दस्तावेज (एक्जिबिशन ब्रीफ) को संदर्भ आसान बनाने हेतु लिखित एक सुविचारित निदेशात्मक लेख का रूप ग्रहण करना चाहिये।

**तर्क (R) :** इसमें सभी जानकारी होती है ताकि अभिकल्पक समस्या को समझ सके तथा अभिकल्प समस्या पर कार्य कर सके।

**कूट :**

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (1) (A) गलत है, परंतु (R) सही है। | (2) (A) सही है, परंतु (R) गलत है। |
| (3) (A) और (R) दोनों सही हैं।     | (4) (A) और (R) दोनों गलत हैं।     |

**45. अभिकथन (A) :** संग्रहालयों में सोडा-एसिड अग्निशामकों के प्रयोग की अनुशंसा नहीं की जाती।

**तर्क (R) :** वे उपयोग करने के लिये दुर्व्वहनीय होते हैं तथा कला संग्रहों के लिये क्षतिकारक होते हैं।

**कूट :**

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (1) (A) गलत है, परंतु (R) सही है। | (2) (A) सही है, परंतु (R) गलत है। |
| (3) (A) और (R) दोनों सही हैं।     | (4) (A) और (R) दोनों गलत हैं।     |

**46. अभिकथन (A) :** प्रकाश के कारण कला संबंधी वस्तुओं का अपक्षय तब रुक जाता है जब उन्हें अंधेरे में रख दिया जाता है।

**तर्क (R) :** प्रकाश-रसायन की प्रतिक्रियाएं एक बार शुरू होने के बाद, प्रकाश के आने अथवा अल्ट्रावाइलेट विकिरण समाप्त होने के बाद भी चलती रहती हैं।

**कूट :**

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (1) (A) गलत है, परंतु (R) सही है। | (2) (A) सही है, परंतु (R) गलत है। |
| (3) (A) और (R) दोनों सही हैं।     | (4) (A) और (R) दोनों गलत हैं।     |

**47. अभिकथन (A) :** पील के अमेरिकी म्यूज़ियम तथा फिलाडेलिफ्या म्यूज़ियम अपना अस्तित्व नहीं बचा पाये।

**तर्क (R) :** ऐसा वित्तीय कारणों से हुआ।

**कूट :**

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (1) (A) गलत है, परंतु (R) सही है। | (2) (A) सही है, परंतु (R) गलत है। |
| (3) (A) और (R) दोनों सही हैं।     | (4) (A) और (R) दोनों गलत हैं।     |

**48. अभिकथन (A) :** हिमायन प्रक्रिया में कीटनाशक नियंत्रण विधि का प्रयोग नियत परिपाठी अथवा निवारक आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।

**तर्क (R) :** यह एक हस्तक्षेपीय उपचार है।

**कूट :**

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (1) (A) गलत है, परंतु (R) सही है। | (2) (A) सही है, परंतु (R) गलत है। |
| (3) (A) और (R) दोनों सही हैं।     | (4) (A) और (R) दोनों गलत हैं।     |

49. **Assertion (A) :** While using sling hygrometer Tap water can be used.

**Reason (R) :** The impurities in Tap water do not effect the reading.

**Code :**

(1) (A) is wrong, but (R) is right.      (2) (A) is right, but (R) is wrong.

(3) Both (A) and (R) are right.      (4) Both (A) and (R) are wrong.

50. **Assertion (A) :** Measuring the absolute amount of water in air is not sufficient.

**Reason (R) :** Because temperature also has an effect on the drying capacity of the air.

**Code :**

(1) (A) is wrong, but (R) is right.      (2) (A) is right, but (R) is wrong.

(3) Both (A) and (R) are right.      (4) Both (A) and (R) are wrong.

49. अभिकथन (A) : स्लिंग हाइग्रोमीटर का उपयोग करते समय नल के पानी का उपयोग किया जा सकता है।

तर्क (R) : नल के पानी की अशुद्धियों का पठन (रीडिंग) पर प्रभाव नहीं पड़ता।

कूट :

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (1) (A) गलत है, परंतु (R) सही है। | (2) (A) सही है, परंतु (R) गलत है। |
| (3) (A) और (R) दोनों सही हैं।     | (4) (A) और (R) दोनों गलत हैं।     |

50. अभिकथन (A) : हवा में पानी के निरपेक्ष परिमाप को मापना पर्याप्त नहीं है।

तर्क (R) : क्योंकि हवा की शुष्कन क्षमता पर तापक्रम का भी प्रभाव होता है।

कूट :

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (1) (A) गलत है, परंतु (R) सही है। | (2) (A) सही है, परंतु (R) गलत है। |
| (3) (A) और (R) दोनों सही हैं।     | (4) (A) और (R) दोनों गलत हैं।     |